

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 फरवरी 2024 — फाल्गुन 10, शक 1945

गृह विभाग, सी-अनुभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 फरवरी 2024

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-4/गृह-सी/2024.— दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की शिकायतों के संबंध में जिला बालोद के थाना अर्जुन्दा में दर्ज अपराध क्रमांक 28/2024 धारा 420, 120-बी भादवि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7-क एवं 12 व जिला रायपुर के थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू में दर्ज अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 120-बी, 420 भा.द.वि., भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7,7-क एवं 12 की जांच एवं अनुसंधान करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार की सहमति प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. कौशल, उप-सचिव.